



## निरसा में नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, संचालक फरार

Publish Date: Wed, 27 Mar 2019 09:22 AM (IST)



बेनागोड़िया पंचायत में काफी दिनों से नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। इसके पूर्व भी निरसा पुलिस ने कई बार छापामारी कर अंग्रेजी शराब जब्त कर शराब धंधे का भंडाफोड़ किया था।

**निरसा, जेएनएन।** सहायक उत्पाद आयुक्त डॉ. राकेश कुमार के निर्देश पर उत्पाद विभाग एवं निरसा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर निरसा के बेनागोड़िया पंचायत के नागरडीह जोगीतोपा में सोमवार देर रात छापेमारी कर नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मौके से बड़ी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब व इसके निर्माण में प्रयोग की जानेवाली सामग्री स्टीकर, कार्क, बोटल सील करने वाली मशीन एवं स्प्रिट आदि जब्त किया गया। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। छापेमारी के पूर्व ही संचालक भाग निकले लेकिन संचालक विकास साहनी और आकाश साहनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बताते हैं कि बेनागोड़िया पंचायत में काफी दिनों से नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। इसके पूर्व भी निरसा पुलिस ने कई बार छापामारी कर अंग्रेजी शराब जब्त कर शराब धंधे का भंडाफोड़ किया था। इसके बावजूद भी शराब का अवैध धंधा रूकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले से ज्यादा नकली शराब के इस धंधे में शराब माफिया फल फूल रहे हैं। निरसा में तैयार नकली शराब पूर्वी टुंडी के रास्ते से बिहार तक पहुंचाया जाता है। निरसा में तैयार नकली शराब को ब्रांडेड बोटलों में भरकर निरसा, मैथन, गोवदपुर के होटलों, ढाबो और गांव देहात के छोटे मोटे दुकानों में खपाया जाता है।

**जब्त किये गए नकली शराब व सामग्री :** निरसा पुलिस व उत्पाद विभाग द्वारा की गई छापामारी में 8 पेटी नकली शराब, 20 लीटर तैयार शराब, एक ड्रम में 245 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। साथ ही शराब की बोटल पर लगाए जाने वाले स्टीकर, कार्क, ढक्कन, बोटल को सील करने वाली मशीन भी जब्त की गई।

**कई बार हो चुकी छापेमारी :** इसके पूर्व एक सितंबर 2018 को जुगीतोपा गांव में निरसा पुलिस ने छापामारी कर करीब दो सौ लीटर स्प्रिट, एक सौ लीटर तैयार नकली शराब जब्त किया था। छापामारी के दौरान पुलिस ने एक मारुति कार व एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की थी। वहीं 23 अक्टूबर 2018 को जुगीतोपा गांव में छापामारी कर 134 बोटल नकली अंग्रेजी शराब जब्त किया गया था। लेकिन कोई भी धंधेबाज पकड़ा नहीं गया। पुलिस का मानना है कि क्षेत्र में काफी लोग नकली शराब के धंधे में संलिप्त हैं।

**नकली शराब के धंधे पर पुलिस मौन :** निरसा के जुगीतोपा गांव में इतने बड़े पैमाने पर हो रहे नकली शराब के धंधे के बावजूद निरसा पुलिस पूरी तरह मौन है। कभी कभी छापामारी कर निरसा पुलिस औपचारिकता पूरी कर देती है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि जुगीतोपा गांव में भारी पैमाने पर हो रहे नकली शराब के धंधे पुलिस की छापामारी के बावजूद धंधे बंद नहीं हो रहा है। पुलिस अगर चाहे तो धंधा पर पूरी तरह रोक लग सकता है।

Source: <https://www.jagran.com/jharkhand/dhanbad-illegal-wine-factory-19075653.html>